


उत्तराखण्ड शासन
संस्कृत शिक्षा अनुभाग
संख्या- 637 /XLII-1/2019-05(02)2013
देहरादून: दिनांक 06 अगस्त, 2019

कार्यालय ज्ञाप

संस्कृत शिक्षा विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील के निस्तारण हेतु संयुक्त सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-


क्र०सं०	नाम/पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष
1	श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, संयुक्त सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	कक्ष संख्या-5(भू-तल), पश्चिमी ब्लॉक, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून	9927699454


(इन्दुधर बौड़ाई)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या- 637 (1)/XLII-1/2019- 05(02)2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अनुसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
5. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. गार्ड फाईल।


(इन्दुधर बौड़ाई)
सचिव (प्रभारी)।